



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 27 फरवरी, 2024

फाल्गुन 8, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 207/ग्यारह-2-24-9(42)-17-टी०सी० 69-उ०प्र० जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश(315)-2024

लखनऊ, 27 फरवरी, 2024

अधिसूचना

सा०प०नि०-9

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तिरसठवां संशोधन) नियमावली, 2023

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तिरसठवां संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2024 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह तारीख 26 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली नियम 28 का कहा गया है) के नियम 28 को उपनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस संशोधन प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

	“(2) उपनियम (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता, जो एक सम्बंधित व्यक्ति है, को उक्त प्राप्तिकर्ता की ओर से किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था को कारपोरेट गारंटी प्रदान करके की गई सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य, ऐसी प्रस्तावित गारंटी या वास्तविक प्रतिफल, इनमें से जो भी अधिक हो, की रकम का एक प्रतिशत होना समझा जाएगा।”।
नियम 142 का संशोधन	3—उक्त नियमावली में, नियम 142 में, उपनियम (3) में शब्द “प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में आदेश” के स्थान पर शब्द “प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में सूचना” रख दिये जाएंगे।
नियम 159 का संशोधन	4—उक्त नियमावली में, नियम 159 में, उपनियम (2) में, शब्द “जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर” के पश्चात् शब्द “या उपनियम (1) के अधीन आदेश जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, इनमें से जो भी पहले हो” बढ़ा दिये जाएंगे।
प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 का संशोधन	5—उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में, भाग-ख में, क्रम संख्या 2 में, खंड (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:— “(xivक) एक व्यक्ति कंपनी”
प्ररूप जीएसटी आरईजी-08 का संशोधन	6—उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-08 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

प्ररूप जीएसटी आरईजी-08

[नियम 12(3) देखें]

संदर्भ संख्या

तारीख:

सेवा में,

नाम:

पता:

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)

तारीख:

स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश

यह, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए निम्नलिखित कारणों से पत्र/मेल तारीख द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में है, अर्थात्:—

i.

ii.

अधोहस्ताक्षरी की राय है कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख<<दिन/माह/वर्ष>> है।

2—आपको लंबित विवरणी तुरंत प्रस्तुत करनी होगी।

3—कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज देखें।

4—यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का संदाय करने या रद्द करने की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी बाध्यता का निर्वहन करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्य रद्दकरण की तारीख से पूर्व या पश्चात् में अवधारित किए गए हों।

या

**स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण
रद्द करने का आदेश**

यह तारीख को जारी कारण बताओ नोटिस का संदर्भ है।

- चूँकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है,
और चूँकि इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि
आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है; या
- चूँकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र तारीख द्वारा प्रस्तुत किया
गया है,
और चूँकि कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में
उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण
निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किये जाने के लिए दायी है:-

या

- चूँकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर आप व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि
के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए थे,
और चूँकि इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि
आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है; या
- चूँकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन
आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में सम्मिलित हुए और लिखित या मौखिक
निवेदन किया,
और चूँकि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए आपके लिखित या मौखिक निवेदन की
परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय
है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किये जाने के लिए दायी
है; या
- चूँकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र तारीख द्वारा प्रस्तुत
किया गया है। लेकिन, आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियत या विस्तारित तारीख पर व्यक्तिगत
सुनवाई में सम्मिलित नहीं हुए थे,
और चूँकि कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में
उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण
निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किया जा सकता है; या
- चूँकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर तारीख के पत्र के माध्यम
से प्रस्तुत किया गया है और आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में सम्मिलित हुए
थे, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लिखित/मौखिक निवेदन किया था,
और चूँकि अधोहस्ताक्षरी ने कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत
सुनवाई के समय किए गए निवेदन की परीक्षा की है और उसकी राय है कि आपका
रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किये जाने के लिए दायी है;

i.

ii.

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख <<दिन/माह/वर्ष>> है।

2-कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज देखें।

3-आपको लंबित विवरणी तुरंत प्रस्तुत करनी होगी।

4—यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का संदाय करने या रद्द करने की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी बाध्यता का निर्वहन करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्य रद्दकरण की तारीख से पूर्व या पश्चात् में अवधारित किए गए हों।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता”;

प्ररूप जीएसटी
आर-8 का
संशोधन

7—उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-8 में,—

(क) क्रम संख्या-5 निकाल दिया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या-7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात्:—

“7—देय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस

वर्णन	देय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) निम्नलिखित के सम्बन्ध में टीसीएस के लेखे पर ब्याज		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
(II) विलम्ब फीस		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		

”;

(ग) क्रम संख्या-9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात्:—

“9—टीसीएस, ब्याज और विलंब फीस संदाय के लिए नकद खाते में विकलन प्रविष्टियां (विवरण दाखिल करने के पश्चात् समष्टित)

वर्णन	कर	ब्याज	विलंब फीस
1	2	3	4
(क) एकीकृत कर			
(ख) केन्द्रीय कर			
(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर			

”;

8—उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी पीसीटी 01 में, भाग—ख में, क्रम संख्या—4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात्—

प्ररूप जीएसटी पीसीटी—01 का संशोधन

4	चाहा गया नामांकन	(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट (2) कंपनी सचिव (3) लागत एवं प्रबंधन लेखाकार (4) विधि में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (5) वाणिज्य में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (6) उच्च संपरीक्षा सहित बैंकिंग में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (7) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (8) बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री (9) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा (10) सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी (11) विद्यमान विधि के अधीन कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विक्रय कर व्यवसायी (12) विद्यमान विधि के अधीन कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए करविवरणी तैयार करने वाला (13) सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा
---	------------------	---

टिप्पणी :- सारणी की क्रम संख्या (4) से (8) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से होने चाहिए।

9—उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी—22 में, अंतिम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्—

प्ररूप जीएसटी डीआरसी—22 का संशोधन

“यह आदेश, आयुक्त द्वारा प्ररूप जीएसटी डीआरसी—23 में आदेश जारी किए जाने की तारीख को या इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं रहेगा।”।

आज्ञा से,
डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 207/XI-2-24-9(42)-17-T.C. 69-U.P. GST Rules-2017-Order(315)-2024, dated February 27, 2024 :

No. 207/XI-2-24-9(42)-17-T.C. 69-U.P. GST Rules-2017-Order(315)-2024

Dated Lucknow, February 27, 2024

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules to further amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

**UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (SIXTY-THIRD AMENDMENT)
RULES, 2024**

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Sixty-third Amendment) Rules, 2024. (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force from the 26 th day of October, 2023.
Amendment of Rule 28	2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), rule 28 shall be renumbered as sub-rule (1) and <i>after</i> the sub-rule as so renumbered, the following sub-rule shall be <i>inserted</i> , namely:- "(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the value of supply of services by a supplier to a recipient who is a related person, by way of providing corporate guarantee to any banking company or financial institution on behalf of the said recipient, shall be deemed to be one per cent of the amount of such guarantee offered, or the actual consideration, whichever is higher."
Amendment of Rule 142	3. In the said rules, in rule 142, in sub-rule (3), <i>for</i> the words "proper officer shall issue an order", the words "proper officer shall issue an intimation" shall be <i>substituted</i> .
Amendment of Rule 159	4. In the said rules, in rule 159, in sub-rule (2), <i>after</i> the words "Commissioner to that effect", the words "or on expiry of a period of one year from the date of issuance of order under sub-rule (1), whichever is earlier," shall be <i>inserted</i> .
Amendment of FORM GST REG-01	5. In the said rules, in FORM GST REG-01 , in PART-B, in serial number 2, <i>after</i> clause (xiv), the following clause shall be <i>inserted</i> , namely:- "(xiva) One Person Company".
Insertion of FORM GST REG-08	6. In the said rules, <i>for</i> FORM GST REG-08 , the following form shall be <i>substituted</i> , namely:-

FORM GST REG-08

[See rule 12(3)]

Reference No.

Date:

To

Name:

Address:

Application Reference No.(ARN)

Date:

**Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or
Tax Collector at source**

This is in reference to the request raised *vide* letter/mail dated
for cancellation of registration under the Act due to the following reason, namely:-

- i.
- ii.

The undersigned is of opinion that the effective date of cancellation of registration is <<DD/MM/YYYY>>.

2. You are required to furnish pending returns immediately.
3. Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.
4. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the

liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

OR

**Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or
Tax Collector at source**

This has reference to the show-cause notice issued dated

- WHEREAS no reply to the show cause notice has been submitted,

AND, WHEREAS, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s); or

- WHEREAS reply to the show cause notice has been submitted *vide* letter dated ;

AND, WHEREAS, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) ; or

- WHEREAS no reply to the show cause notice has been submitted and on day fixed for personal hearing, you did not appear in person or through authorised representative;

AND, WHEREAS, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s); or

- WHEREAS no reply to the show cause notice has been submitted, but you or authorised representative attended the personal hearing and made a written or verbal submission;

AND, WHEREAS, the undersigned on examination of your written or verbal submission made during personal hearing and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s); or

- WHEREAS reply to the show cause notice has been submitted *vide* letter dated But, you or authorised representative did not attend the personal hearing on scheduled or extended date;

AND, WHEREAS, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s); or

- WHEREAS reply to the show cause notice has been submitted *vide* letter dated and you or authorised representative attended the personal hearing, made a written/oral submission during personal hearing;

AND, WHEREAS, the undersigned has examined your reply to show cause notice as well as submissions made at the time of personal hearing and is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s);

- i.
ii.

The effective date of cancellation of registration is <<DD/MM/YYYY>>.

2. Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.

3. You are required to furnish pending returns immediately.

4. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

Place:

Date:

Signature

Name of the Officer

Designation

Jurisdiction";

Amendment of
FORM GSTR-8

7. In the said rules, in FORM GSTR-8,-

(a) serial number 5 shall be *omitted*;

(b) *for* serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be *substituted*, namely :-

"7. Interest, late fee payable and paid

Description	Amount payable	Amount paid
1	2	3
(I) Interest on account of TCS in respect of		
(a) Integrated Tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
(II) Late Fee		
(a) Central Tax		
(b) State/UT Tax		

";

(c) for serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"9. Debit entries in cash ledger for TCS, interest and late fee payment (to be populated after filing of statement)

Description	Tax	Interest	Late fee
1	2	3	4
(a) Integrated Tax			
(b) Central Tax			
(c) State/UT Tax			

";

8. In the said rules, in **FORM GST PCT-01**, in PART-B, *for* serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number 4 and entries shall be *substituted*, namely:-

Amendment of
FORM GST
PCT-01

"

4	Enrolment sought	(1) Chartered Accountant (2) Company Secretary (3) Cost and Management Accountant (4) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Law (5) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Commerce (6) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Banking including Higher Auditing (7) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Business Administration (8) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Business Management (9) Degree examination of any Foreign University recognized by any Indian University (10) Retired Government Officials (11) Sales Tax practitioner under existing law for a period of not less than five years (12) Tax return preparer under existing law for a period of not less than five years (13) Any other examination notified by Government
---	------------------	---

NOTE :- Sr. No. (4) to (8) of the table should be from an Indian University established by any law for the time being in force.

";

9. In the said rules, in FORM GST DRC-22, *after* the last paragraph, the following paragraph shall be *inserted*, namely:-

Amendment of
FORM GST
DRC-22

"This order shall cease to have effect, on the date of issuance of order in FORM GST DRC-23 by the Commissioner, or on the expiry of a period of one year from the date of issuance of this order, whichever is earlier."

By order,

Dr. NITIN RAMESH GOKARN,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1142 राजपत्र-2024-(3164)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 47 सा० राज्य कर-2024-(3165)-1000 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।